


कीवा शतावरी सिरप





ब्राधावरी ब्रता हैं।

शतावरी को एसपैरागस रेसमोसस के नाम से भी जाना जाता है। यह एसपैरागस परिवार का एक सदस्य है। यह एक एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी भी है। एडाप्टोजेनिक जड़ी-बूटियां आपके शरीर को शारीरिक और भावनात्मक तनाव से लड़ने में मदद करती हैं। जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए शतावरी को एक सामान्य स्वास्थ्य टॉनिक माना जाता है।







शतावरी के गुण






कीवा शतावरी सिरप

कीवा शतावरी सिरप उन महिलाओं में हार्मोनल स्तर को विनियमित करने में फायदेमंद है जो मासिक धर्म चक्र और रजोनिवृत्ति की स्थिति में हैं।


यह स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध के स्राव को बढ़ाने में भी मदद करता है।





कीवा शतावरी सिरप

जड़ी बूटी कोलाइटिस और गैस्ट्रो संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। इसमें एंटी-अल्सरसेरोजेनिक और गैस्ट्रोप्रोटेक्टिय गुण हैं। कीवा शतावरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइक्रोबियल संक्रमण के प्रबंधन में फायदेमंद है। कीवा शतावरी मूत्र के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है।






TIT

कीवा शतावरी प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्तर में सुधार करके, प्रभावी स्तनपान सुनिश्चित करके नई माताओं में स्तनपान में सहायता करता है











यह थकान को दूर करने में मदद करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है



यह डिलिवरी के बाद शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है



TIT



मूत्रवर्धक गुण



गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य में सहायक



TIT

कीवा शतावरी फाइटोएस्ट्रोजेन उन महिलाओं में हार्मीनल संतुलन को ठीक करने में मदद करता है जिनके मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति के कारण हार्मोनल स्तर में उतार-चढ़ाव होता है, पूर्व-मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करता है।







सामग्री



चित्रक



भृंगराज



विडारी



सामग्री



शतावरी




मसटक



दैन्से इस्तेपाल दन्से

10 मिली लीटर सिरप दिन में रोज़ 2 बार सुबह और शाम को भोजन से आधे घंटे पहले या खाली पेट लें।



किसी भी विशिष्ट स्थितियों के लिए कृपया एक स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श करें।



संपर्क करें

कीवा इंडस्ट्रीज

वेबसाइट : www.kevaind.org



धन्यवाद